



VIBHOR STEEL TUBES LIMITED

(Formerly known as Vibhor Steel Tubes Private Limited)

CIN: L27109HR2003PLC035091

Regd. Office: Plot No. 2, Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar, Haryana – 125005

☎ 01662-237359, 222710 ✉ contact@vstlindia.com 🌐 www.vstlindia.com

**VSTL: CS: Results/ Q2/ 2025-26
2025**

November 14,

To, Department of Corporate Affairs, BSE LIMITED, P.J Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	To, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051
BSE Scrip Code: 544124	NSE Symbol: VSTL

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of newspaper advertisement with respect to the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025, published on Saturday, November 14, 2025, in the Newspapers viz. — “Financial Express” (in English) and “Jansatta” (in Hindi).

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For VIBHOR STEEL TUBES LIMITED

Ms. Pallavi Aggarwal
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No. A42227

Encl: as above

Manufacturing Units:

Maharashtra - Pipe Nagar (Vill. Sukeli), NH-17 BKG Road, Via – Nagothane, Teh. Roha, Distt. Raigad, Maharashtra – 402126

Telangana - SY No. 515 & 516, Udithyala (V), Balanagar (M), Mahabubnagar (Dist.), Telangana – 509202

Odisha - Plot No. 45, Podbahal, Bhasma-42, Sadar Sundargarh, Sundargarh, Odisha – 770019

[illegible]

अमर वाणिज्य लिमिटेड
CIN : L74900DL1985PLC020118
105, साठेकरे स्थाजा- II, लीला राम मार्केट, साठेक एकसरेतरे II, नई दिल्ली - 110049
30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन
अनंकेसित वित्तीय परिणामों का सारांश
(आपतिव्यों के सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (वित्तियम, 2015)

विवरण	30 सितंबर 25 को रामान निमाटी	30 सितंबर 25 को रामान निमाटी	30 सितंबर 24 को रामान निमाटी
	अनंकिनिता	अनंकिनिता	अनंकिनिता
प्रचालनो से कुल आय	6.54	12.02	8.98
अर्थिक के लिए कुल लाभ (+)/हानि(-) (कर और साधारण मदी से -)	(2.67)	(6.91)	0.78
कर से पूर्व अर्थिक के लिए कुल लाभ (+)/हानि (-) (साधारण मदी के बाद)	(2.67)	(6.91)	0.78
कर के बाद अर्थिक के लिए कुल लाभ (+)/हानि (-) (साधारण मदी के बाद)	(2.67)	(6.91)	0.78
अर्थिक के लिए कुल व्यापक आय (अर्थिक के लिए लाभ/हानि को शामिल करके (कर के बाद))	(3.95)	(8.19)	5.15
इन्विस्टी सेवर पुंजी	199.20	199.20	199.20
पूर्व वर्ष के अंकिनिता तुलन पर यदाएं अनुवार आरंभित (पुनर्मुल्यांकन आरंभित से अंकिनिता)	-	-	-
आय प्रति सेवर (10/- र. प्रति का) (वार्षिको नहीं)			
मूल व नवकुल (र.)	(0.13)	(0.35)	0.04

1. उपरोक्त 30 विंशत्, 2025 को यमाया ममाभा और छाभाी के लिए सेवी (आपणन के सूचककरण और प्रकटीकरण आवस्यकताएँ) विनयम, 2015 के विनयमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दापर अनेकनित वितीय परिणामा का एक साथ है। पूर्ण वितीय परिणामा का प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज को वेसाटीटी (www.msels.in) पर उपलब्ध है और कर्ण को वेसाटीटी (www.amarvanijaya.com) पर उपलब्ध है।

2. वितीय परिणाम सेवी (आपणन के सूचककरण और प्रकटीकरण आवस्यकताएँ) विनयम, 2015 के विनयमन 33 और इसके अधीन बाधक एक संशित विनयम के साथ पडित कंयनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्भाित निर्माण लेखा ममाभा (इंड एर) के अनुसार तैयार कंयनी या।

दिनांक: 12.11.2025
स्थान: कोलकाता

[illegible]

क्र.पं. खता संख्या	आबंधक(को) / कानूनी यारिफ(सी) / कानूनी प्रतिनिधि(सी) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि रुपै तिथि	कबका की तिथि
TCHHH 0370000 0100103 0840. TCHHH 0370000 0100103 5488	श्री जोगी सिंह (कर्जदार) और श्रीमती सान्पा सिंह (सह-कर्जदार)	क्र.पं. खता TCHH1037000000100130840 के अंतर्गत रु. 8,60,481/- (छह लाख साठ हजार चार सौ इब्बतीस मात्र) और क्र.पं. खता संख्या TCHH103700000100135488 के अंतर्गत रु. 47,604/- (छह सौ बीसतीस हजार छह सौ चार मात्र) अर्थात् कुल रु. 8,08,085/- (छह लाख आठ हजार पचासी मात्र), दिनांक 06.08.2025 तक बकाया	10-11-2025

प्रतिभूत आस्तियों/अवल सम्पत्तियों का वर्णन : आवासीय ईडब्ल्यूएस, मकान नंबर 500, क्षेत्रफल परमाणु 26.05 वर्ग मीटर (कवर एरिया 12.50 वर्ग मीटर), सेक्टर -11 पश्चिम दिनांक १० अक्टूबर १९७५, आवासीय पुरम, आवास विकास कोलानी, सिकंदरा स्लीप, लोहादीही, तहसील, और जिला- आगरा में स्थित, बिच्री विलेज में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ, निम्नानुसार परिबद्ध - पूर्व: मकान नंबर 501; पश्चिम: मकान नंबर 499; उत्तर: रास्ता 6 मीटर चौड़ा; दक्षिण: आवास नंबर 509

<p>TCHH10.0 76000100 7600100 761509, TCHH109 76000100 342261</p>	<p>श्रीमती किर्तिन (कर्जदार) और श्री रफीक अहमद (साह-कर्जदार)</p>	<p>ऋण खाता TCHH10960001000341509 के आंगण सं. 2371.253/- (रुपये दैर्घ्य लाख इक्कहजर हजार दो सौ तिपण मात्र) और ऋण खाता संख्या TCHH10976000100342261 के आंगण सं. 1.10.825/- (रुपये एक लाख सय हजार और दो चब्बीस लाख आठानु कुल सं. 24.82.078/-) (रुपये चौबीस लाख बयासी हजार अठहतर मात्र)</p>	<p>11-11-2025</p>
---	---	---	--------------------------

<p>तिथि : 14-11-2025</p> <p>स्थान : आगरा (उत्तर प्रदेश)</p>	<p>हस्ता./- , प्राधिकृत अधिकारी</p> <p>वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनैस लिमिटेड</p>
---	--

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड
पंजीकरण: L74999DL1982PLC014411
पंजीकृत कार्यालय: 208, गैरमन हाउस-11, कर्मपुरा कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110015, फ़ोन: 26100101
ईमेल आईडी: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, वेबसाइट: www.jagattradingenterprises.com

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेक्जेंडरपरीक्षित परिणामों का विवरण			
		(रुपये हजार)	
क्र. सं.	विवरण	वर्तमान तिमाही समाप्त	पिछला समाप्त
		30.09.2025 (अलेक्जेंडरपरीक्षित / समीक्षित)	30.06.2025 (अलेक्जेंडरपरीक्षित / समीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	1,225.55	8,291.40
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण और / या असाधारण मदों से गट्टो)	(5,641.73)	6,144.40
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	(5,641.73)	6,144.40
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	(5,083.04)	5,355.40
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(5,057.49)	5,327.40
6	इनिवेंटरी शेयर पूंजी	50,816.40	50,816.40
7	पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दर्शाए अनुसार आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)		
8	जारी और बंद परिचालनों के लिए प्रति शेयर आय (प्रत्येक का एकूणी 10 रुपये)		
	क) मूल	(1.00)	1.00
	ख) रनु	(1.00)	1.00

टिप्पणियाँ:

- 30 सितंबर, 2025 को समाप्त विभागीय और छात्राधीन के लिए अलेक्जेंडरपैरिसीत विनियम परिणामों को 13 नवंबर तक मंडल की वेबसाइट पर लेखाजोखा समिति द्वारा समाप्त और अनुमति के बाद अनुमति के बाद
- सांख्यिकी सेवा परीक्षाओं में संशोधित सेवा (सूचीबद्ध) दाखिल और प्रकटीकरण आवश्यकताएं। वि
- 33 के अनुसार इन विनियम परिणामों की प्रतिलिपि को
- लेखाजोखा नमक - 108 में परिभाषित अंतर्निहित सेवा शुरू नहीं है क्योंकि कंपनी एनपीएसीटी प्रक
- अपवाद विभागीय और इन मंडलों के बीच लेखाजोखा विनियम परिणामों के विस्तृत समूह का
- (सूचीबद्ध) और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं। विनिमय 2015 के विनिमय 33 के तहत सेवा
- नवीकरणीय एलएल के अनुसार। 30.09.2025 तक विभागीय और छात्र मंडलों के बीच लेखाजोखा विनियम
- कंपनी की वेबसाइट www.jtel.co.in पर स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.mscl.in पर

कानून ट्रेडिंग एंडर

स्वागत है दिल्ली

विभाग: 13 नवंबर 2025

डी

CIN: L74899DL1994PLC057507, पंजी. कार्यालय: बी-09, 412, आईटीएन टाउन बिल्डिंग, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतम्पुरा, नई दिल्ली - 110088
टेलीफोन: 011-45058963, वेबसाइट: www.brilliantportfolios.com, ई-मेल: brilliantportfolios@gmail.com

30.09.2025 को समाप्त तिमाही/ छमाही के लिए अलेख्यपरीक्षित परिणामों का सारांश
(पति शेयर बाजार को छोड़कर रु. लाखों में)

विवरण	समान तिमाही (30.09.2025 (अनर्कक्षित)	समान तिमाही (30.06.2025 (अनर्कक्षित)	समान तिमाही (30.09.2024 (अनर्कक्षित)	समान छमाही (30.09.2025 (अनर्कक्षित)	समान छमाही (30.09.2024 (अनर्कक्षित)	समान वर्ष (31.03.2025 (अनर्कक्षित)
प्रयालनों से कुल आय (कुल)	74.54	73.70	83.00	148.24	157.04	321.43
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा असाधारण मदी से पूर्व)	19.53	16.20	18.65	35.73	35.23	75.59
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदी के बाद)	19.53	16.20	18.65	35.73	35.23	75.59
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदी के बाद)	14.62	12.12	12.37	26.74	24.87	55.07
अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	14.62	12.12	12.37	26.74	24.87	55.07
इंक्विटी शेयर पूंजी	310.18	310.18	310.18	310.18	310.18	310.18
आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रति का)						
(ए) मूल	0.47	0.39	0.40	0.86	0.80	1.78
(बी) तनुकृत	0.47	0.39	0.40	0.86	0.80	1.78

टिप्पणियाँ:

- 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों को ऑडिट करने वाली द्वारा समीक्षा और सिकाफिशि की गई है और 13.11.2025 को आयोजित निर्देशकों की बैठक में घोषित किया गया है।
- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचकविषय तथा अन्य प्रकटीकरण अधिनियम) विनियमों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत सेयर बाजार में दायित्व को निर्देशकों को घोषित करने के लिए किया गया है। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनंकेखित वित्तीय परिणामों के विवरण प्रारूप का सार है। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनंकेखित वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण सेयर बाजार की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.brikilportfolios.com पर उपलब्ध है।
- पूरे अवधि/वर्ष के ऑडिटों को वर्धमाना के ऑडिटों के साथ तुलनीय बनाते हेतु जारी कमेटी बयान, पुनः प्रकटित/वर्धमाना के ऑडिटों के साथ तुलनीय किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली		हिते एवं कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियो लिमिटेड
दिनांक: 13.11.2025		के निदेशकों का बोर्ड
		प्रबंध निदेशक DIN: 02682612

WOODSVILLA LIMITED
(CIN:L55101DL1994PLC030472)
REGD OFF: E-4, IIND FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI - 110024
(Tel:011-41552060) Website: www.woodsvilla.in, Email: woodsvillaresort@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 30.09.2025						
Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		(Rs. In Lacs)
	30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
Total Income	9.15	22.79	6.56	31.94	47.23	83.98
Net Profit before exceptional items and Tax	-2.95	-0.86	-4.37	-3.81	5.33	10.51
Net Profit after exceptional items and Tax	-2.95	-0.86	-4.37	-3.81	5.33	10.51
Net Profit after Tax*	-2.95	-0.86	-4.37	-3.81	5.33	4.73
Total Comprehensive Income for the period (Net of Tax)	8.74	2.16	10.51	10.90	22.64	12.68
Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- per Share)	300.70	300.70	300.70	300.70	300.70	300.70
Reserve including Revaluation Reserve	187.59	181.80	191.25	187.59	191.25	180.50
Earnings per Share (Face Value Rs. 5/- per Share)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	
(Basic and Diluted)	0.10	0.02	0.10	0.12	0.47	0.29

We declare that the Audit Report issued by the Statutory Auditors of the Company on the Quarterly unaudited Financial Results for the period ended on September 30, 2025, was unmodified.

- 1) The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Company's Board of Directors at their respective meetings held on 13.11.2025.
- 2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly unaudited Financial Results filed with stock exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/82/2016 dated July 5, 2016. The full format of Quarterly unaudited Financial Results is available on the website of BSE at www.bseindia.com and also on Company's Website at www.woodsVilla.in
- 3) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- 4) The Company operates in single business segment namely Hospitality. Hence, no separate disclosure as per "Ind AS-108" is required for the Operating segment.
- 5) Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to make them comparable with the current period / year.

	For and on behalf of the Board
	Meena Aggarwal
Place : New Delhi	Whole Time Director
Date: 13.11.2025	DIN 00084504


विभोर स्टील डायिंग लिमिटेड
 (एन में विभोर स्टील डायिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विहित)
 सीआईएन: U12710HR2003PLC035491
 पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 2, औद्योगिक विकास कॉलेज रोड, विसल नगर, हिसार, हरियाणा - 125005 भारत,
 टेलीफोन नं.: 01682-227388, 222710; फोन फैक्स: कॉल नं.: 01682-227388; ईमेल: info@vstlindia.com; www.vstlindia.com

30.09.2025 को समाप्त तिमाही तथा अर्द्धवर्ष के अलेक्सापरीक्षित एक वित्तीय परिणाम का सारोर्स							
(ए. लाख में, इंगीजल फॉर्मेट)							
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही हेतु			समाप्त अर्द्धवर्ष हेतु		वर्षागत संतुष्ट हेतु
		फिब्रवर 30, 2025 अलेक्सापरीक्षित	जून 30, 2025 अलेक्सापरीक्षित	सितंबर 30, 2025 अलेक्सापरीक्षित	फिब्रवर 30, 2025 अलेक्सापरीक्षित	सितंबर 30, 2024 अलेक्सापरीक्षित	
1	परिचालन से कुल आय (निवल) (कर, आयकरका एच / अध्याय अस्ताकारा मती से मुदी)	28,213.48	23,104.08	23,830.80	51,317.57	46,147.90	99,826.22
2	अवधि का निवल लाभ / (हानि) (कर, आयकरका एच / अध्याय अस्ताकारा मती से मुदी)	187.92	417.72	161.46	605.64	572.16	1,686.38
3	कर पूर्व अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आयकारा एच / अध्याय अस्ताकारा मती से उपरगत)	187.92	417.72	161.46	605.64	572.16	1,686.38
4	कर उपरगत अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आयकारा एच / अध्याय अस्ताकारा मती से उपरगत)	141.86	314.13	88.50	455.99	390.52	1,177.04
5	अवधि की कुल व्यापक आय (आवधि के लाभ / (हानि) (कर उपरगत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरगत) से समाविष्ट)	140.17	314.97	84.25	455.14	386.27	1,175.88
6	समाप्त अर्थ मुनी	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24
7	आय प्रति अरा (अस्ताकारा मती से मुदी) (ए. 10/- प्रत्येक प्रति)						
	(1) मुनभूत	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21
	(2) तालीकृत	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21
	आय प्रति अरा (अस्ताकारा मती से उपरगत) (ए. 10/- प्रत्येक का)						
	(1) मुनभूत	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21
	(2) तालीकृत	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21

टिप्पणी :

- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सहीका एवं संतुष्टि, लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है तथा तयुक्त निदेशक मंडल द्वारा 12.11.2025 को आवेगित अपनी वेबसाइट पर देखा जासकता है तथा स्या।
- उपरोक्त सारोर्स, सैबी (सुरीक्षासंग संविधान एवं प्रकटीकरण आकरकाय) विनियमनो 2015 के विनियम 33 में अंगत संविधान एकांकन को प्राप्त आकरकाय अलेक्सापरीक्षित तिमाही तथा अर्द्धवर्ष को समाप्त तिमाही परिणामों के विरुद्ध आकरा का एक सारोर्स है। अलेक्सापरीक्षित तिमाही तथा अर्द्धवर्ष को समाप्त तिमाही परिणामों का मुदी प्रकटीकरण की वेबसाइटो अमती (www.ncindia.com, www.bscindia.com) पर तथा सैबी की वेबसाइट (www.vstindia.com) पर उपलब्ध है। परिणाम को नीचे दिखे मुने अनुसार ओके को स्वीन करके भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

कुछे फिब्रर 2018 लुभा रिमिटेड

हस्ता /-

विनय कोरिणक

अध्यक्ष

सहान : विस्तार

दिनांक : 12/11/2025



डिआरएफ : 02249672

011-45090162
co.in

ईपीएस को छोड़कर)

वर्ष	पिछला वर्ष
समय	समय

25	31.03.2025
शेन	(समीलित)
5	9.312.70
2	(8.848.12)
5	(8.848.12)
	(7.790.74)
	(7.689.97)
0	50.816.40
	51.566.76
	(1.51)
	(1.51)

2025 को आयोजित
या है।

न, 2015 के विनियम
में संलग्न है।

उपकरण है - सेंसी
पैमों के साथ दायर
मर्मां का पूर्ण प्रारूप
है।

न सिमेटेड के लिए
हस्ताक्षर/मोहर
विभाग, कुडगर गौरव

संख्या: 00021163

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सदर मुजफ्फरगंज											
पत्रांक: 1259/विनि/0/2025-26					अल्पकालीन विनिदा सूचना			दिनांक : 06-11-2025			
1- महापौराध्य भवन पास उत्तर प्रदेश महीषय की ओर से खण्ड विकास अधिकारी सदर मुजफ्फरगंज द्वारा विधायक विधि योजनामार्गम निम्न कार्य की विनिदा सूचना निम्न दर पर शासीतीय विनाम से पंजिकृत ठेकेदारों से नियमानुसार निम्न कार्य कराये जाने हेतु विधायक विनांक 21.11.2025 तक अतिव्यक्त की जाती है। प्रती दिन विनांक 21.11.2025 को 2:00 बजे को खण्ड विकास अधिकारी सदर के पास में उपस्थित विनिदाताओं के समक्ष सांख्यी जायेगी। टेंडर प्रपत्र विनिर्धारित विनिदा शुल्क (बैंक द्रुपद की राखण विनांक अधिकारी सदर मुजफ्फरगंज के पास में देय होगा) जमा करके विनिदा विनांक 21.11.2025 तक अपरान्त 12:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। टेंडर सभी होती है। टेंडर को के उपरान्त में उपस्थित। उक्त से सम्बन्धित नतीजे एवं कार्यो का विवरण इस कार्यालय के पत्रांक: 1259/विनि/0/2025-2026 दिनांक 06.11.2025 में उपलब्धित है जो किसी भी कार्य दिवस में आकर देखी जा सकता है।											
क्रमांक	कार्य का नाम		कार्ड की मात्रा (पीड)	अनुमत राशि रु०	प्रकार प्रति 2 प्रतिशत	विनिदा प्रपत्र मूल्य	कार्य शुरू करने की अवधि				
1	मुकाम जाट दरिगावली भीम सीमंगर पर 63 मं संहिता मानद के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण		58	5.03	10000	250	4 मही				
2	गाँव 16 रुकुली रोड विजयनगर के समान उत्तरी रावुली में भी मकान पीछी (टिड) के मकान से सीटीसीरौट के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण		91	8.18	16000	400	4 मही				
3	भीम जमनपुर में रामनगर के मकान से घणघात के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण		60	4.94	10000	250	4 मही				
4	राजत कोसीनी मुजफ्फर में अखिल गोपाल जी के मकान से विजता (वाली) के मकान तक सीटीसीरौट व आधुनिकीरौट नाली निर्माण कार्य		58	4.18	8000	200	4 मही				
5	ग्राम दिसलपुर में मुहम्मद के मकान से कानी की टली तक सड़क के दोनों बाईं तरफ निर्माण कार्य		210	6.06	12000	300	4 मही				
6	मोहल्ला रावुली रोड 27 मही गाँव में नवीन (वाली) के मकान से ग्राम सुपुर्न सीमंग के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण कार्य		80	7.11	14000	350	4 मही				
7	भीम जामिनगर निजट अरौला इन्दर कोसल अरौला कुपार के मकान से रावुली टली के मकान (सिहाल) तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण कार्य		35	3.05	6000	150	4 मही				
8	गाँव 09 में भीम आठवारी कोसीनी बराम में सुपुर्नगल के मकान से भीम शासीतीय की मन्दिर तक नाली एवं सीटीसीरौट निर्माण कार्य		41	3.08	6000	150	4 मही				
9	ग्राम विजय में मुहम्मद शर्मा के मकान से आनन्द शर्मा के मकान तक व गोपाल हरिजन के मकान से कावु शर्मा के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण कार्य		121	6.13	12000	300	4 मही				
10	ग्राम घांघुपर में मरिय के मकान से रामेन्द्र चौधरी जी के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण		150	9.12	18000	450	4 मही				
11	ग्राम हरिनगर मरियली में प्रोफ़ेसर शर्मा के मकान से सुनील चौधन के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण कार्य		35	4.87	9000	150	4 मही				
12	मोहल्ला हाजीपुरा में अमरु के मकान से सुनु के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण कार्य		22	1.42	2800	75	4 मही				
13	ग्राम बागोवाली में आनन्द जी के मकान से अपूर्वसिंह स्वतल तक खड्गना निर्माण कार्य		105	1.61	3200	75	4 मही				
14	ग्राम मोहल्लेडी में रामनगर के मकान से रावत सीटीसीरौट के मकान तक सीटीसीरौट व नाली निर्माण		64	4.48	9000	200	4 मही				
खण्ड विकास अधिकारी सदर, मुजफ्फरगंज।											



कनारा बैंक
(पूर्व कनारा बैंक लिमिटेड)

Canara Bank
(A Unit of India Infrastructure)

मोचन सूचना

(भारत सरकार का उपग्रह)

वसुली अनुभाग, केंद्रीय कार्यालय
फॉर्नंबर 39, प्रथम तह, बौद्धा इन्ड्रु के समीप,
नीलम-बादा मार्ग, फरीदाबाद

**विशेष परिपत्तिपत्र के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें इससे पर्याप्त
‘अधिनियम’ संदर्भित) की धारा 13 (b) के अंतर्गत मोचन के अधिकार का प्रयोग करने हेतु सूचना।**

आगोहरासरकारतल कनरा बैंक (इसमें इसमें इससे पर्याप्त ‘प्रतिभुति ऋणदाता’ संदर्भित) के अधिनियम के अंतर्गत श्रुतिक प्रतिक्रिया अधिनियम के रूप में, एतदुसार
सरकारी नियमावली के नियम 8(a)(b) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(b) के अंतर्गत आर सनी को निम्नानुसार सूच सूचना निवर्तित करते हैं :

क्र. सं.	उधारकर्ता एवं गारंटर का नाम तथा पता	मार्ग सूचना की तिथि अधिग्रहण सूचना की तिथि	बर्गता राशि
	श्रीमती मकुलता देवी पत्नी लखी राव, पता : मकान नं. 391 / 1, समग्रपुल चौक खान मार्केट के पास बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा — 121001, की पुष्पेंद्र सिंह पुत्र श्री संत राम सिंह (गारंटर), पता : 324 / 1, राजीव कोलोनी, सिंग नरिंदर, बल्लमगढ़, फरीदाबाद - 121001, श्री वेद नाथ पुत्री श्री संत राम सिंह (सह-उधारकर्ता), पता : मकान नं. 391 / 1, समग्रपुल चौक खान मार्केट के पास बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा — 121001	अधिग्रहण सूचना की तिथि 10-11-2025	₹ 4,00,648.21 (रुपये चार लाख छह सौ अड़तीस तथा छहशे पैसे मात्र) और उससे बाद का पूरा ब्याज, लागत एवं व्यय (यदि कोई वसुली हो तो उसे धावकर)
	श्रीमती मकुलता देवी पत्नी लखी राव, पता : मकान नं. 416, बौद्धा इन्ड्रु के पास भगत सिंह कॉलोनी, बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा — 121004, श्री ललित कुमार पुत्र लखी राव, पता : मकान नं. 407, भगत सिंह कॉलोनी, बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा — 121004	अधिग्रहण सूचना की तिथि 10-11-2025	₹ 4,60,800.65 /- (रुपये चार लाख साठ हजार आठ सौ तथा पैसैंद पैसे मात्र) और उससे बाद का पूरा ब्याज, लागत एवं व्यय (यदि कोई वसुली हो तो उसे धावकर)

[illegible]


अरावली सिक्शोरिडी एण्ड फाइनॅस लिमिटेड
 सीजबंदी: L67120HR1980P/C039125
 पंजीकृत कार्यालय: इंदूर-३, ३३६, नू रोड, एरबल रोड, सेक्टर-६५, गुवागुन-१२२००३, गुजरात
 ईमेल: info@aravali.com, वेबसाइट: www.aravali.com
 ३० दिवसां २०२५ मे कार्यालय विमोचन अर्ज अर्पण मे खुल्ल
 अर्थशास्त्रीय विमोचन विभाग मे विमोचन

क्र. सं.	विवरण	उत्पाद विभागी			उत्पाद अंशुर्व		उत्पाद वर्ष
		30/09/2025 (अंशुर्वीकृत)	30/06/2025 (अंशुर्वीकृत)	30/09/2024 (अंशुर्वीकृत)	30/09/2025 (अंशुर्वीकृत)	30/09/2024 (अंशुर्वीकृत)	31/03/2025 (अंशुर्वीकृत)
1	कुल आय	23.62	23.58	22.51	47.20	43.21	90.93
2	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आयवादािक एवं/अथवा असाधारण मदों से पुरी)	(2.47)	(6.87)	(1.84)	(9.34)	(14.51)	(30.32)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आयवादािक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(2.47)	(6.87)	(1.84)	(9.34)	(14.51)	(30.32)
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आयवादािक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(2.47)	(6.87)	(1.84)	(9.34)	(14.51)	(29.80)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/हानि (कर उपरांत) तथा व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	(2.35)	(6.74)	(1.70)	(9.09)	(14.24)	(29.70)
6	समता अंश पूंजी	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7	अंतरशिर्षा (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मूल्यीकरण आश्रित छोड़कर)						(1607.73)
8	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का)						
	मूलभूत :	Rs (0.02)	Rs (0.04)	Rs (0.02)	Rs (0.06)	Rs (0.10)	(Rs 0.20)
	तत्कालीकृत :	Rs (0.02)	Rs (0.04)	Rs (0.02)	Rs (0.06)	Rs (0.10)	(Rs 0.20)

- 1) उपर्युक्त विवरण, सेमी (सूचीकरण तालिका एवं प्रकटीकरण आयाचकता) विधिविभागी 2015 के विधिविम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचिन्ज के पास फाइनल बड 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिथि एवं अर्द्धवर्ष के अलेखावलीपत्र विवरण के विस्तृत प्रमाण का संशोधन है। लेखावलीपत्र विवरण परिणामों का पूर्ण प्राप्ति, अर्द्धवर्ष (सितंबर) की वेबसाइट (www.bseindia.com) जहां पर कंपनी की प्रमुखीयता सूचीबद्ध है, पर और कंपनी की वेबसाइट (www.aravallisecurities.com) पर उपलब्ध है।
- 2) उपर्युक्त विवरण परिणामों को आइएनएस 30 (‘अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया-निर्देश’) में प्रसिद्धि तथा एवं प्रमाणित सिद्धांतों के संसाधन, कंपनी अधिनियम 2013 (‘अधिनियम’) की धारा 133 के अंतर्गत निष्पत्ति भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनएस 30) एवं तथा समाप्त रूप में भारत में सीक्रेट एवं निष्पत्ति भारतीय लेखांकन प्रवृत्तियों (अनुसार) एवं तथा उपर्युक्त तालिका एवं प्रवृत्ति-निर्देश आयाचकता के विधिविभागी 2015 (‘सूचीकरण विवरण-निर्देश’) के विधिविम 33 के अंतर्गत मान्य में तैयार किया गया है।
- 3) दिनांक 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिथि एवं अर्द्धवर्ष के अंतर्गत के अंतर्गत में उपर्युक्त विवरण अलेखावलीपत्र विवरण परिणामों की लेखावलीपत्र समिति द्वारा संशोधन की गई है तथा निष्कर्षक समाप्त दिनांक 12 नवंबर 2025 को विधिविभागी अर्द्धवर्ष में अर्द्धवर्ष अलेखावलीपत्र दिया गया है।
- 4) कंपनी को वित्तीयिक लेखावलीपत्रों में दिनांक 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिथि एवं अर्द्धवर्ष के अंतर्गत के अंतर्गत में उपर्युक्त वर्णित अलेखावलीपत्र विवरण परिणामों की सीमित निष्पत्ति की है तथा इन पर आयाचकता तथा व्यवहार की है।
- 5) आय कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदान का प्रमाण जो है वह उपर्युक्त के लिए प्रमाणित कार्यवाही आय के आधार पर बनाया गया है।
- 6) वर्तमान में कंपनी का संचालन जो है वह केवल एक अर्द्धवर्ष अलेखावलीपत्र एवं अन्य प्रमाणित संपाद प्रदान करने तथा समाप्त है तथा तदनुरूप ही अर्द्धवर्ष अर्द्धवर्ष अलेखावलीपत्र 18-परिचालनकारक खंडवार के अनुसार और ही उपर्युक्त प्रमाणित परिचालनकारक खंडवार नहीं है।
- 7) दिनांक 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिथि की ओरके संचालनकारक आंशिक है, जो कि 31 सितंबर 2025 को समाप्त तिथि एवं अर्द्धवर्ष के अंतर्गत में अलेखावलीपत्र अलेखावलीपत्र अलेखावलीपत्र तिथि एवं के 30 जून 2025 को समाप्त तिथि तिथि के प्रमाणित प्रमाणित तिथि के नथ्य और तथा समाप्त के रूप में प्रस्तुत है।
- 8) पूर्ववर्ती तिथिमें, जो है ओरके को, उन्हें लेखावलीपत्र के अंतर्गत में, जहाँ तिथि की अर्द्धवर्ष समाप्त गया है, वहाँ उपर्युक्त/ उपर्युक्तवर्ष किया गया है।

<p>दिनांक : 12 जनवरी 2025</p> <p>स्थान : मुड़शीव</p>		<p>बोर्ड के आदेशानुसार</p> <p>कृते आचार्यी सिक्सोप्टिशन एंड फर्ब्लिन लिमिटेड</p> <p>हस्ता/-</p> <p>रंजन कुमार पोद्दार</p> <p>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</p>
--	---	--

डीसीबी बैंक लिमिटेड
(ए-सेट हाउस, 7/56, डी.बी.गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005)
(कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय: छठी मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति वापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई-400013, महाराष्ट्र)

सफ़ेसी अधिनियम के नियम 9(1) के तहत अचल सम्पत्ति को बिक्री हेतु नीलामी चक्रव्युच्च सूचना			
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पंजित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिपत्रों और पुरानिर्माण तथा प्रतिभूति अविश्वसनीय अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों को बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।			
प्राथमिक अविश्वसनीय द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार, सह-कर्जदारों और गारंटियों को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संपत्ति डीसीबी बैंक के लिमिटेड के पास बंधक है। बैंक के प्राथमिक अधिकारों में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुरानिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान के अंतर्गत कब्जा ले लिया है। संपत्ति को नीचे उल्लिखित वकालत राशि और ऑफिस के व्यापक शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित निर्दिष्ट प्राप्त सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, जो कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:—			
सम्पत्ति को बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" के आधार पर की जायेगी।			
कर्जदार तथा गारंटर का नाम	1. आरक्षित मूल्य/ 2. जमा धरोहर राशि (ईएमपी)/ 3. बोली बुद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	कच्चे का प्रकार
गौरव ज़िंदल, अंगूरी ज़िंदल और संजीव ज़िंदल	1. रु.1600000/- (रुपये सोलह लाख मात्र), 2. रु.1600000/- (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र), 3. रु.25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	28-11-2025 एवं 11 पूर्वा. से 12 अपराह्न	भौतिक
बैंकक संपत्ति का विवरण: संपत्ति अर्थात आवासीय मकान जिलाका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज अर्थात 58.52 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 526 में शामिल है, मोहल्ला नंद नगरी, गांधी सोबीत खुर्द, परगना जलालाबाद, तहसील नवीनगढ़, जिला पाण्डिचाबर में स्थित है। इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित: पूर्व में शुभाष त्वाणी का मकान / पश्चिम में गम्पू का प्लॉट, उत्तर में सुरेश का मकान / दक्षिण में 12 फीट चौड़ा रास्ता।			
श्री मुनवरखान मुनवर उर्फ श्री मुनवरखान खान (पुत्र श्री शराफमान) और श्रीमती आसमा खान (पत्नी श्री मुनवरखान)	1. रु.2100000/- (रुपये इक्कीस लाख मात्र), 2. रु.2100000/- (रुपये दो लाख दस हजार मात्र), 3. रु.25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	28-11-2025 एवं 11 पूर्वा. से 12 अपराह्न	भौतिक
बैंकक संपत्ति का विवरण: 77 वर्ग गज = 64.38 वर्ग मीटर का समस्त भाग, खेत खसरा संख्या 276/3 और नु खेत खसरा संख्या 831 का हिरसा, सोजा मंडरगुड़ी, परगना और तहसील कोइरत, जिला अलीमगढ़ में स्थित है, जिसकी सीमा निम्नानुसार है: पूर्व में: 15 फीट माप के बाव जवादे के प्लॉट, पश्चिम: 15 फीट माप के बाव सड़क 14.5 फीट चौड़ी। उत्तर: 46 फीट माप के बाव मुनवरखान का प्लॉट, दक्षिण: 47 फीट माप के बाव बिस्मिल्लाह का प्लॉट।			
श्री धर्मवीर देवी 2. गुडिया देवी	1. रु.1800000/- (रुपये अठारह लाख मात्र), 2. रु.1800000/- (रुपये एक लाख अस्सी लाख मात्र), 3. रु.25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	28-11-2025 एवं 11 पूर्वा. से 12 अपराह्न	भौतिक

<p>बंधक संपत्ति का विवरण: 60 वर्ग गज या 50.166 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक प्लॉट, खसरा संख्या 165 का एक भाग, बरौला जाफ़रवाद परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़ में स्थित है:- पूर्व – 15 फीट माप और रास्ता 16 फीट चौड़ा, पश्चिम – 15 फीट माप के बाद, आराजी भूदय सिंह आदि, उत्तर – 36 फीट माप के बाद अन्धक का मकान, दक्षिण – मापा 36 फीट के बाद रामेश्वर का घर</p>	<p>1. 8.800000/- (रुपये आठ लाख मात्र) केवल), 2. 8.800000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र), 3. 8.25.000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)</p>	<p>28-11-2025 एवं 11 पूर्वा. से 12 अग्रह</p>	<p>भौतिक</p>
<p>विशाल वशिष्ठ और मीनू वशिष्ठ</p>			
<p>बंधक संपत्ति का विवरण: राजावात अपार्टमेंट में 41सरी मंजिल पर आवासीय प्लैट संख्या-309, खसरा संख्या-1060, 1017 और 1009 पर निर्मित, श्री राम विहार गुम्फ्ट, हरिप्रसाद बाई, आगरा, उत्तर प्रदेश -282004</p>			
<p>नूरुज्जमा सिद्दीकी और गुलनाज सिद्दीकी</p>	<p>1. 11.1100000/- (रुपये ग्यारह लाख मात्र), 2. 11.110000/- (रुपये एक लाख दस हजार मात्र), 3. 8.25.000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)</p>	<p>28-11-2025 एवं 11 पूर्वा. से 12 अग्रह</p>	<p>भौतिक</p>
<p>बंधक संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 417, 418, 422 के भाग में स्थित मकान, रामगढ़, पंजपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001</p>			

संजीव अदलखा, पैन पाला हजीरसिंग प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशक संजीव अदलखा के माध्यम से), मधुमिता अदलखा और प्रीतम लाल अदलखा	1. रु.2100000/- (रुपये इक्कीस लाख मात्र), 2. रु.2100000/- (रुपये दो लाख दस हजार मात्र), 3. रु.25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	28-11-2025 एवं 11 पूर्व. से 12 अपराध	भीतिक
बंधक संपत्ति का विवरण: यू.जी.एस.आर-1ई (यूजीएफ), अंशक पन्ना वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 (नगर निगम का संपत्ति पर लगभग 1.50 लाख रुपये का बकाया है और हमारी बंधक संपत्ति पर नोटिस चिपका दिया गया है।)	1. रु.2100000/- (रुपये इक्कीस लाख मात्र), 2. रु.2100000/- (रुपये दो लाख दस हजार रुपये (मात्र), 3. रु.25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	28-11-2025 एवं 11 पूर्व. से 12 अपराध	भीतिक
बंधक संपत्ति का विवरण: यू.जी.एस.आर.-1डी (यूजीएफ), अंशक पन्ना वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010। (नगर निगम का संपत्ति पर लगभग 1.50 लाख रुपये का बकाया है और हमारी बंधक संपत्ति पर नोटिस चिपका दिया गया है।)	1. रु.2100000/- (रुपये इक्कीस लाख मात्र), 2. रु.2100000/- (रुपये दो लाख दस हजार रुपये (मात्र), 3. रु.25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	28-11-2025 एवं 11 पूर्व. से 12 अपराध	भीतिक
निष्कर्ष - तथ्य एस-63, संजीव संजयों के निरीक्षण के लिए 17-11-2025 से 21-11-2025 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे के बीच श्री सुमित कुमार - मो. 9796633166, श्री कुंकुज माथुर - मो.9819979116 एवं श्री सुजन शर्मा - मो.-8395032800 से प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे के बीच संपर्क करें। 27-11-2025 को सायं 5 बजे तक ईंपैडी जमा करने की तिथि और समय, भागीदारी अनुरोध पत्र, केवाईसी, पैर कार्ड, ईंपैडी के प्रमाण के साथ ईमेल आईडी sumitkumar16@dccbbank.com, srajan.sharma@dccbbank.com तथा nikunj.mathur@dccbbank.com पर जमा करें। इच्छुक खरीदारों/बोलीदाताओं को ईंपैडी राशि केवल डीसीटी के लिमिटेड के पक्ष में रिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।			

- 1) 'संपत्तियों' जहाँ है चुकती है, 'जो है वही है', 'जो कुछ भी है वही है' और 'आग्रह सहित' के आधार पर बिना किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के बेची जा रही हैं।
- 2) पंजीकरण, जैसा, टयूल्स प्रक, कर और सहित सभी वैधानिक बकाया/परिचर शुल्क/अन्य बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे और प्राथिकृत अधिकारी या बैंक
- 3) ई-नीलामी वाली संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, भार में प्रहणधिकार या किसी अन्य बकाया के लिए हमेशादत नहीं होगा, जो बैंक को हस्तांतरित हो, बोलतीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक दैनंदिनारों, संपत्ति कर के क्षेत्रों, बिजली के बकाया और सहित संपत्ति पर क़ायम कर के बारे में अपनी स्वयंसेवक जांच करें।
- 4) संपत्ति करें दी, वहां प्रकाश करें, मोबाइल नंबर: 8142000064; बैंक एंड ऑफिस: 8142000066/63-क्रेता, कार्यालय पते आईडी: info@bankauctions.in और मेल आईडी: prakash@Bankauctions.in उनके वेब पोर्टल <https://bankauctions.in/> पर ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित विधियों पर 5 मिनट का असीमित विचार। बोलतीदाता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रो के विस्तृत नियम से शर्तें <https://www.dcb.bank.in/SCS/showpage/page/customer-corner> लिंक पर देखें।
- 5) इच्छुक बोलतीदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (4closure.com), मोबाइल नंबर: 8142000064, बैंक-एंड ऑफिस: 8142000066/63-क्रेता से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य हैं। संपत्ति बोलतीदाता केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ई-नीलामी पर अनिवार्य प्रविष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
- 5) वेसाइट पर प्रसारण/निविदा दस्तावेज के साथ उपयुक्त निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके नीलामी प्रक्रिया में अंशलाइन ई-नीलामी में भाग लेना अनिवार्य हैं।

**VIBHOR STEEL TUBES LIMITED**

(Formerly Known as Vibhor Steel Tubes Private Limited)

CIN: L27109HR2003PLC035091

Regd. Office: Plot No. 2, Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar, Haryana - 125005 India
Phone No. : 01662-237359, 222710; Email Id: contact@vstlindia.com; Website: www.vstlindia.com

Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended 30.09.2025

(Rs. in Lakhs except EPS)

S. N	Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
		September 30, 2025 UnAudited	June 30, 2025 UnAudited	September 30, 2024 UnAudited	September 30, 2025 UnAudited	September 30, 2024 UnAudited	March 31, 2025 Audited
1	Total income from operations (net)	28,213.48	23,104.08	23,630.80	51,317.57	46,147.90	99,826.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	187.92	417.72	161.46	605.64	572.16	1,686.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	187.92	417.72	161.46	605.64	572.16	1,686.38
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	141.86	314.13	88.50	455.99	390.52	1,177.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	140.17	314.97	84.25	455.14	386.27	1,175.88
6	Equity Share Capital	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10 /- each)						
	(i) Basic	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21
	(ii) Diluted	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21
	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10 /- each)						
	(i) Basic	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21
	(ii) Diluted	0.75	1.66	0.47	2.40	2.06	6.21

Notes:

- a) The above Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 12.11.2025.
- b) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Quarter and Half Year Ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Quarter and Half Year Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on Company's Website (www.vstlindia.com). The same can be accessed by scanning the below QR Code.

Place: Hisar
Date: 12.11.2025For Vibhor Steel Tubes Limited
Sd/-
Vijay Kaushik
Chairman
DIN: 02249672**LENDINGKART**
Simplifying MSME Finance**LENDINGKART FINANCE LIMITED**

CIN: U65910MH1996PLC258722

Registered Office: Office 3 Connekt, 401/B, 4th Floor, Silver Utopia, Cardinal Gracious Road, Andheri East, Mumbai Suburban - 400099, Maharashtra, India.

Corporate Office: 401, 4th Floor, Iconic Shyamal, Nr. Shyamal Cross-Roads, Ahmedabad, 380 015, Gujarat, India.

Phone: +91-79-4913 2800 | Email: lendingkartfinance@lendingkart.com | website: https://lendingkartfinance.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(Amount: ₹ in Lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended September 30, 2025 (Unaudited)	Quarter Ended September 30, 2024 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	9,867.85	22,849.93	86,694.41
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(10,300.98)	(8,772.36)	(39,651.82)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(10,300.98)	(8,772.36)	(39,651.82)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(7,757.79)	(6,560.58)	(28,833.96)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(7,759.23)	(6,566.84)	(28,835.58)
6.	Paid up Equity Share Capital	4,418.79	4,418.79	4,418.79
7.	Paid up Preference Share Capital (Refer note d)	14,976.51	-	14,976.51
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	36,374.48	67,841.07	52,129.34
9.	Securities Premium Account	70,919.71	67,246.84	70,919.71
10.	Networth	55,769.78	72,259.86	71,524.64
11.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,24,569.18	2,04,291.49	1,67,573.24
12.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL
13.	Debt Equity Ratio	2.23	2.83	2.34
14.	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) (Not Annualised except for the year ended) -	(13.11)	(14.85)	(61.91)
	1. Basic:			
	2. Diluted:			

JM

Regd. Office: S
Gopalsamy Temp
Em**IN THE MATTER OF
PRIVATE**

It is hereby in
U65999TZ1990PT
Adhi Vinayaga Com
Coimbatore North,
in terms of the Com
of India and new ce
to rule 29 of the C
FROM PALMA DE
PRIVATE LIMITED
information.

Date: 12.11.2025
Place: Coimbatore**Repco**
Home Finance**Corporate Office**New No.2
Ph: (04**SPE**
PH

This is to bring
SEBI/HO/MIRSD/M
to open a special
lodged prior to 15
deficiency in the d
upto 31st March, 20
from 7th July, 2025
re-lodged for transi
RTA, as on 2nd J
shareholders are
Technologies Limit
District, Nanak
einward.ris@kfinte
pending transfer re
timeline as allowed

Place: Chennai
Date : 13.11.2025

"Regd. Off. : Plot No-1
Phone: 0124-2362-
EXTRACT OF
THE QUARTO

Sl. No. Part

1 Total income from
2 Net Profit/ (Loss)
exceptional and/
3 Net Profit/ (Loss)
(after exceptional
4 Net Profit/ (Loss)
exceptional and/
5 Total comprehen
(Comprising Profit
and other Compr
6 Equity Share Cap
Earnings Per Sha
(for continuing an
7

2025
(except per share data)

Year ended	Year ended
March 31, 2025	March 31, 2024
326.16	326.16
253.80	253.80
253.80	253.80
218.60	218.60
49,736.00	49,736.00
88.28	88.28
2,18,059.30	2,18,059.30
24.76	24.76
24.76	24.76

respective meetings

filed with the Stock
Financial Results of the
5.

Order of the Board
Commercial Co. Ltd.
Sd/-
(Monisha Saraf)
Director
DIN: 07503642

EMBER 2025

(₹ in Lakhs)

Year ended	Year ended
March 2025	March 2024
28,252.92	28,252.92
162.18	162.18
162.18	162.18
109.50	109.50
64.85	64.85
600.00	600.00
2,360.51	2,360.51
1.83	1.83
1.83	1.83

E Limited under
Full format of the
om and also on

Industries Limited
Rohan Ghosh
Managing Director
DIN - 00032965